

अध्याय-13

हेलेन केलर

शब्दों के अर्थ लिखो-

नेत्रहीन - अंधी । सुप्रसिद्ध- महसूस अविष्कार -खोज । बेबसी -चाह कर भी कुछ न कर पाना। संतान - अपना बच्चा । खेद- दुख ।

सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ-

- हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था ?
क.1880में [√] ख.1820में ग.1810में
- हेलेन केलर की शिक्षिका का क्या नाम था ?
क.मिस सुलीवन [√] ख.राधेकृष्णन ग.अब्राहम लिंकन
- नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं?
क. देवनागरी लिपि ख. ब्रेल लिपि [√] ग.मनुस्मृति
- अलग-अलग ढंग से उंगलियों को मोड़कर मिस सुलेमान हेलेन को क्या सिखाना चाहती थी ?
क.पढ़ना [√] ख.खेलना ग.घूमना
- हेलेन केलर ने नेत्रहीनों के लिखाई बोर्ड पर लिखना सीखा मेरा पहला वाक्य था-
क.बिल्ली दूध पीती है। [√] ख.कुत्ता दूध पीता है। ग. गाय घास खाती है।

सही गलत का निशान लगाओ

- हेलेन केलर जन्म से ही अंधी और बहरी थी ।[X]
- हेलेन केलर अपनी माता की पहली संतान थी। [√]
- डॉ. ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया ।[√]
- 1900 में कुछ ट्यूशनशनों और परीक्षाओं के बाद मुझे रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। [√]
- मिस सुलीवन ने अंगुलियों को मोड़ कर सबसे पहले BoLL लिखना सिखाया। [X]

इन प्रश्नों के उत्तर लिखो -

1. हेलेन केलर कौन थी ?

उत्तर- हेलेन केलर एक दृष्टिबाधित, गूंगी अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज सेविका तथा शिक्षिका थी।

2. हेलेन केलर अंधी, गूंगी और बहरी कैसे हो गई?

उत्तर - हेलेन केलर लगभग एक साल की उम्र में बहुत बीमार पड़ गई जिसके कारण उसके सुनने और बोलने की शक्ति चली गई, इस प्रकार हेलेन अंधी, गूंगी और बहरी हो गई।

3. मिस सुलीवन ने हेलेन को कैसे पढ़ना सिखाया ?

उत्तर- मिस सुलीवन अंधे और बहरे लोगों को पढ़ाती थी, उन्होंने हेलेन को उंगलियों को अलग-अलग ढंग से मोड़कर वास्तविक चीजों को छूकर विभिन्न स्थानों की यात्रा कराकर हेलेन को पढ़ना सिखाया।

4. हेलेन को कैसे पता चला कि प्रत्येक चीज का एक नाम होता है

उत्तर- हेलेन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने महसूस किया कि लोग संकेतों से नहीं बल्कि लोग बोल कर अपनी बात कहते हैं मैंने भी बोलने, चिल्लाने की बहुत कोशिश की परंतु कोई नतीजा नहीं निकला।

5. "मैंने हर चीज खोजी और छानबीन की" इन पंक्तियों से हेलेन का क्या आशय है ?

उत्तर - हेलेन अपने आसपास की हर चीज का नाम जानना चाहती थी उसे एहसास हुआ कि मिस सुलीवन ने जो सिखाएं थे वे शब्द किसी वस्तु के नाम होते हैं उनका भी मतलब होता है तब वह चीजों की खोजबीन शुरू कर दी।

6. शुरू में लाख कोशिश करने के बाद भी ना बोल पाने पर हेलेन की क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों?

उत्तर- हेलेन शुरू में बोलने के लिए चिल्लाने की बहुत कोशिश की परंतु वह ना तो बोल पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी उसे बहुत गुस्सा आया वह खूब रोई अपने हाथ पर पटके और थक कर बैठ गई।

निम्नलिखित विराम चिन्ह का उनके नाम से मिलान कीजिए

उत्तर - लाघव चिह्न - °

हंसपद चिह्न - ^

निर्देशक चिह्न - -

पूर्ण विराम - ।

अल्पविराम	-	,
विस्मयदिबोधक चिह्न-		!
प्रश्नचिह्न	-	?
संयोजक	-	-
दोहरा उद्धरण	-	" "
इकहरा उद्धरण	-	' '

दिए गए शब्दों में उचित विराम चिन्ह लगाओ

1. वाह ! क्या छक्का मारा है । (विस्मयदिबोधक चिह्न)
2. शाबाश ! इसी तरह आगे बढ़ते रहो । (विस्मयदिबोधक चिह्न)
3. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया ? (प्रश्नचिह्न)
4. पानी में नमक किसने मिलाया ? (प्रश्नचिह्न)
5. "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" (अल्पविराम) (दोहरा उद्धरण)
6. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। (पूर्ण विराम)
7. सूर्योदय हो गया। (पूर्ण विराम)
8. राम-सा चरित्र मिलना असंभव है। (संयोजक)
9. सुख-दुख जीवन में लगे ही रहते हैं। (संयोजक)
10. "अंग्रेजों भारत छोड़ो" (दोहरा उद्धरण)